

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

हिंदी सेवी सम्मान योजना - वर्ष 2016 के लिए विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में चयनित
हिंदी सेवी विद्वानों के नामों की घोषणा

प्रेस विज्ञप्ति

आगरा, दिनांक: शुक्रवार, 13.04.2018

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग (भाषा प्रभाग) के अंतर्गत द्वितीय और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण-प्रशिक्षण, अनुसंधान और बहुआयामी विकास के लिए कार्यरत एक शैक्षिक संस्था है। इसका संचालन स्वायत्त संगठन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा किया जाता है।

हिंदी राष्ट्रीय एकता और समन्वय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास, प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपसी संवाद को बढ़ाते हुए भारत की समावेशी संस्कृति के विकास का उत्तरदायित्व भी संस्थान ने निभाया है। इसके साथ ही संस्थान ने विदेशों में हिंदी भाषा और उसके माध्यम से आधुनिक भारत की चेतना और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रसारित करने के लिए भी संकल्पित है। यही तथ्य केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना और इसके हर कार्यक्रम के मूल में केंद्रीय रूप में विद्यमान रहा है।

हिंदी समाज और विद्वत समुदाय के प्रति अपने व्यापक उत्तरदायित्व को समझते हुए संस्थान द्वारा हिंदी सेवी सम्मान योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से 12 पुरस्कार श्रेणियों में कुल 26 विद्वानों को हिंदी सेवी सम्मान प्रदान करने की शुरुआत कर रहा है। इससे पहले, वर्ष 1989 से 2014 तक 7 पुरस्कार श्रेणियों में कुल 14 हिंदी सेवी विद्वानों को प्रति वर्ष सम्मानित किया जाता था। पुरस्कार राशि भी 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये प्रति पुरस्कार की गई है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1989 से 2015 तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 399 विद्वान सम्मानित/पुरस्कृत किए जा चुके हैं।

इसी क्रम में हिंदी सेवी सम्मान (वर्ष 2016) के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयनित कुल 26 विद्वानों के नामों की घोषणा आज दिनांक 13.04.2018 को केंद्रीय हिंदी संस्थान, मुख्यालय आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नन्द किशोर पाण्डेय द्वारा की गई।

वर्ष 2016 के लिए सम्मानित होने वाले विद्वानों के नामों की सूची निम्नवत है -

1. **गंगाशरण सिंह पुरस्कार** **पुरस्कार संख्या-4**
(हिंदी प्रचार एवं हिंदी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
 1. डॉ. भारतभूषण शर्मा (जम्मू और कश्मीर)
 2. डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे (महाराष्ट्र)
 3. डॉ. अजयकुमार पटनायक (उड़ीसा)
 4. डॉ. पी. माणिक्यांबा (तेलंगाना)

2. **गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार** **पुरस्कार संख्या-2**
(1) हिंदी पत्रकारिता तथा (2) जनसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
 1. श्रीमती शीला झुनझुनवाला (नई दिल्ली)
 2. श्री रोहित सरदाना (नई दिल्ली)

3. **आत्माराम पुरस्कार** **पुरस्कार संख्या-2**
(1) विज्ञान तथा (2) चिकित्सा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
 1. प्रो. बनवारीलाल गौड़ (राजस्थान)
 2. श्री महेंद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश)

4. **सुब्रहमण्य भारती पुरस्कार** **पुरस्कार संख्या-2**
(1) सर्जनात्मक एवं (2) आलोचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
 1. प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल (मध्य प्रदेश)
 2. श्री कैलाश चन्द्र पंत (मध्य प्रदेश)

5. महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(हिंदी माध्यम से ज्ञान के विविध क्षेत्र, पर्यटन एवं पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान के लिए)
1. प्रो. दयाशंकर शुक्ल (गुजरात)
2. प्रो. महावीर सरन जैन (उत्तर प्रदेश)
6. डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(विदेशी हिंदी विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं लेखन में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
1. श्री सत्यदेव टेंगर (मॉरीशस)
2. प्रो. जियांग जिंग ख्वे (चीन)
7. पद्मभूषण डॉ. मोटूरि सत्यनारायण पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(आप्रवासी भारतीय विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं लेखन में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
1. श्री देवेन्द्र सिंह (यू.एस.ए.)
2. श्रीमती उषा राजे सक्सेना (यू.के.)
8. सरदार बल्लभ भाई पटेल पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(1) कृषि विज्ञान एवं (2) राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए)
1. प्रो. रमेश चंद्र तिवारी, (कृषि) (उत्तर प्रदेश)
2. प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री (हिमाचल प्रदेश)
9. दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(1) मानविकी के क्षेत्र में एवं (2) कला, संस्कृति एवं विचार की भारतीय चिंतन परंपरा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
1. डॉ. रामशरण गौड़ (उत्तर प्रदेश)
2. डॉ. बट्टी प्रसाद पंचोली (राजस्थान)

10. स्वामी विवेकानंद पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(भारतविद्या (इंडोलॉजी) के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए)
1. प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश)
 2. प्रो. नन्दलाल मेहता वागीश (हरियाणा)
11. पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(1) शिक्षाशास्त्र एवं (2) प्रबंधन में हिंदी के माध्यम से उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए)
1. प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत (शिक्षाशास्त्र) (उत्तर प्रदेश)
 2. प्रो. भगवती प्रसाद शर्मा (प्रबंधन) (राजस्थान)
12. राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार पुरस्कार संख्या-2
(1) विधि एवं (2) लोक प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी भाषा में उल्लेखनीय कार्य के लिए)
1. प्रो. अवतार सिंह (विधि), (उत्तर प्रदेश)
 2. प्रो. सुरेंद्र कुमार कटारिया (लोक प्रशासन) (राजस्थान)

(डॉ. जोगेंद्र सिंह मीणा)

असि. प्रोफेसर एवं मीडिया प्रभारी, कें.हिं.सं.